

## संचयी परीक्षा

### कक्षा VI

### हिंदी

### 1

प्रश्न 1. निम्नलिखित पद्यांश के आधार पर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए --

वह चिड़िया जो -

कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर

रस उड़ेलकर गा लेती है

वह छोटी मुँह बोली चिड़िया

नीले पंखों वाली मैं हूँ

मुझे विजन से बहुत प्यार है

- 1 चिड़िया कैसे गीत गाती है?
- 2 चिड़िया किस के लिए गाती है?
- 3 चिड़िया का आकार कैसा है?
- 4 विजन और कंठ शब्दों के अर्थ लिखिए
- 5 चिड़िया को एकांत में रहना क्यों पसंद है?

2 दिए गए गद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

सामने जाखू का पहाड़। ऊँची चर्च। चर्च की घंटियाँ बजती तो दूर-दूर तक उनकी गूँज फैल जाती। लगता इस संगीत से प्रभु ईशू स्वयं कुछ कह रहे हैं। सामने आकाश पर सूर्यास्त हो रहा है। गुलाबी सुनहरी धारियाँ नीले आसमान पर फैल रही हैं। दूर-दूर फैले पहाड़ों के मुखड़े गहराने लगे और देखते-देखते बत्तियाँ टिमटिमाने लगीं। रिज की रौनक और माल की दुकानों की चमक के भी क्या कहने ।

- प्र 1. लेखिका को सामने क्या दिखाई दे रहा था?
- प्र 2. चर्च की घंटियाँ बज कर क्या कहती जान पड़ती है?
- प्र 3. सामने आकाश पर क्या हो रहा है?
- प्र 4. बत्तियाँ कैसे लगने लगीं?
- प्र 5. "सूर्यास्त" का संधि विच्छेद कीजिए ।

## संचयी परीक्षा

### कक्षा VI

### हिंदी

### 2

#### 1 पढ़े गए पाठों के आधार पर प्रश्नों के उत्तर दीजिए:-

- 1 'नादान दोस्त' पाठ में अंडों के टूट जाने के बाद माँ के यह पूछने पर कि - 'तुम लोगों ने अंडों को छुआ होगा।' के जवाब में श्यामा ने क्या कहा और उसने ऐसा क्यों किया?
- 2 'तुम्हें बताऊँगी कि हमारे समय और तुम्हारे समय में कितनी दूरी हो चुकी है।' - यह कहकर लेखिका क्या-क्या बताती हैं?
- 3 'नादान दोस्त' पाठ में कार्निस पर अंडों को देखकर केशव और श्यामा के मन में जो कल्पनाएँ आईं और उन्होंने चोरी-चुपके जो कुछ कार्य किए, क्या वे उचित थे? तर्क सहित उत्तर लिखो।
4. तुम्हें यदि 'वह चिड़िया जो' कविता को कोई और शीर्षक देना हो तो क्या शीर्षक देना चाहोगे? उपयुक्त शीर्षक सोच कर लिखिए।

#### 2 दिए गए काव्यांश में से विशेषण शब्द छाँटकर लिखिए

वह चिड़िया जो-

चोंच मारकर

चढ़ी नदी का दिल टटोलकर

जल का मोती ले जाती है

वह छोटी गरबीली चिड़िया

नीले पंखोंवाली मैं हूँ

मुझे नदी से बहुत प्यार है।

## संचयी परीक्षा

### कक्षा VI

### हिंदी

### 3

#### 1. दिए गए वाक्यों में से क्रिया विशेषण छाँटकर लिखिए

- श्यामा कहती, क्यों भड़या, बच्चे निकलकर फुर्र-से उड़ जाएँगे?
- जब उससे काम न चला तो नहाने की चैकी लाकर स्टूल के नीचे रखी और डरते-डरते स्टूल पर चढ़ा।
- आहिस्ता से उतर आया।

#### 2. दिए गए गद्यांश में से सर्वनाम शब्द छाँटकर लिखिए

अब तो श्यामा को भड़या पर शरा भी तरस न आया। उसी ने शायद अंडों को इस तरह रख दिया कि वह नीचे गिर पड़े। इसकी उसे सशा मिलनी चाहिए। बोली - इन्होंने अंडों को छेड़ा था अम्माँ जी।

#### 3. सार्वनामिक विशेषण छाँटकर लिखिए :

- मेरी किताब दे दो।
- वह घर शीला का है।
- मेरी माँ बाज़ार गई है।
- आपकी बहन आई थी।

